

# दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

6



सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र का अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

**आज का विचार**  
प्रकृति ने केवल दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

चंडीगढ़। वीरवार, 2 मई, 2024 वर्ष 22, अंक 105, मूल्य: 3 रुपए RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpn.com

## कांग्रेस सरकार ने मारा हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों का हक: अनुराग ठाकुर

### भाजपा सरकार की योजनाएँ बंद करने वाली कांग्रेस को जनता सिखायेगी सबक: अनुराग ठाकुर

**सिटी दर्पण**  
शिमला

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मजदूर दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों की हित में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद करने पर कांग्रेस को श्रमिक विरोधी कहा है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ चलाई। हिमाचल में श्रमिकों के हितों के लिए 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा हिमाचली मजदूरों के कल्याण हेतु गठित हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन

किया था।

धूमल द्वारा शुरू इस कार्यक्रम को आदर्शपूर्ण जयराम ठाकुर जी ने भी चालू रखा जिससे अब तक प्रदेश के श्रमिकों को कई तरह की मदद मिलती थी जैसे बेटियों की शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हेतु आर्थिक मदद, साइकिल, सौर लालटेन, सिलाई मशीन इत्यादि। इसके लिए हमने प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं के भुगतान सहित अन्य उपक्रमों में एक प्रतिशत लेबर से लगाया था। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात अब तक इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों को मिलने वाले सभी लाभ बंद कर दिए गए हैं।

अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि इस सरकार ने आते ही इस बोर्ड के तहत पंजीकृत

किए जाने वाले कामगारों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और मनरेगा के कामगारों को इस योजना के लाभ ले सकने वाली योग्य सूची से हटा दिया। इसके अलावा किसी भी कार्य जिसके तहत काम कर रहे कामगार इस योजना या बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं उसकी कम से कम राशि भी ₹ 10 लाख तय कर दी। इसी प्रकार अन्य कई जटिल रूल रेगुलेशन लागू कर दिए गए जिससे प्रदेश के श्रमिक इस बोर्ड से लाभ न ले सकें। आखिर कांग्रेस को श्रमिकों से इतनी नफरत क्यों है, आखिर कांग्रेस श्रमिकों का हित क्यों नहीं देख पा रही

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन श्रमिक



विरोधी नीतियों के लिए दंड देगी और प्रदेश बनाएगी। एक ओर कांग्रेस है जो सदैव श्रमिक और केंद्र में डबल इंजन की भाजपा सरकार विरोधी राजनीति करती है और वहीं दूसरी

ओर मोदी जी हैं जो श्रमिकों को नए भारत का निर्माणकर्ता बताते हैं, उनपर फूल बरसाकर उन्हें विशेष अतिथि बनाते हैं और उनके पैर भी धोते हैं।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधित ऐतिहासिक तीन विधायकों को संसद से पारित किया और असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया।

ई-श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक और कामगारों को दैनिक जीवन के गुजर बसर के लिए सरकार द्वारा प्रति माह ₹ 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक 29 करोड़ से अधिक

मजदूर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मात्र 436 रुपए सालाना खर्च करके श्रमिक ₹ 2 लाख के टर्म इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से उन्हें ₹ 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है।

हमारी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की थी जिसे अभी तक 42 करोड़ कामगारों के ऊपर लागू किया जा चुका है। आज लगभग 21 करोड़ श्रमिक भाई बहन वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं और लगभग 12 करोड़ श्रमिक भाई बहन आयुष्मान भारत के लिए अब तक 29 करोड़ से अधिक

## सत्तर साल तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस पूरे देश में संविधान लागू नहीं कर सकी: मोदी

### हार के डर से नरेन्द्र मोदी अपने पद की गरिमा भूल गए हैं : राहुल गांधी

एजेसी हिममतनगर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा संविधान को बदल देने के कांग्रेस के दावे पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि विपक्षी पार्टी 70 वर्षों से नरेन्द्र मोदी के बावजूद पूरे देश में संविधान लागू नहीं कर सकी। उत्तरी गुजरात के हिममतनगर में साबरकांडा और मेहसाणा सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि वह संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटकर जम्मू-कश्मीर में भी इसका लागू होना सुनिश्चित किया है।

मोदी ने कहा, कांग्रेस नेता अब दावा कर रहे हैं कि संविधान खतरों में है और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। हकीकत में कांग्रेस अपने 70 वर्ष के शासन में संविधान को पूरे देश में लागू नहीं कर पाई। कश्मीर में हमारा संविधान लागू नहीं हुआ... मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मोदी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना भाजपा के स्टार प्रचारक ने कहा कि पार्टी का 'शहजादा' अब दावा कर रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो



### कांग्रेस की हालत डायनासोर जैसी, सपा का अर्थ समाप्त पार्टी : राजनाथ सिंह

आज राधा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी करार दिया और दावा किया कि कांग्रेस की हालत इस समय डायनासोर जैसी है जो कि विलुप्त हो रही है। सिंह आगरा में बाह की जरार मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार वाहर के समर्थन में वोट मागे। सिंह ने दावा किया कि आने वाले दस साल में बच्चे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि सपा का मतलब समाप्त पार्टी होता है। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, यही तहसील है, जहां से ताल्लुक रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। आज मंच पर बोलते हुए मुझे उनकी याद आ रही है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था लेकिन आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा, मैं पूज्य महात्मा गांधी को याद करना चाहता हूँ। जिन्होंने आजादी के बाद कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। बापू ने जो बात 1947 में कही थी वह आज आप कर रहे हैं। आप स्वयं महात्मा गांधी की इच्छा पूरी कर रहे हैं।

देश जलेगा। उन्होंने कहा, वास्तव में यह कांग्रेस है जो अब जल रही है। वे ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके सपने अब राख में बल गए हैं।

### आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हिंदुओं की निंदा करने का आरोप लगाया, सुशील कुमार शिंदे पर साधा निशाना

सोलापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाया और परीक्षा रूप से इसके वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे पर निशाना साधा जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में केन्द्रीय गृह मंत्री थे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार राम सतपुते के समर्थन में यहां एक रैली में आदित्यनाथ ने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने और देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। कांग्रेस ने दक्षिण महाराष्ट्र की इस सीट से सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को मैदान में उतारा है। आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का नाम लिए बिना कहा, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह करते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं की निंदा करने के लिए हिंदू आतंकवाद नामक वाक्यांश गढ़ा था... संप्रग शासन के दौरान उन्होंने यह वाक्यांश गढ़ा था। और याद करें कि तब केन्द्रीय गृह मंत्री कौन था और आज उनके परिवार का सदस्य यहां चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि संप्रग शासन के दौरान मालेगांव विस्फोट मामले में उनका नाम घसीटने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अपने 65 साल के शासनकाल में भारत को विश्व शक्ति बना सकती थी। आदित्यनाथ ने कहा, यह देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्त करा सकती थी, लेकिन यह कांग्रेस थी जो आतंकवाद का मूल कारण थी और यह कांग्रेस ही थी जिन्होंने नक्सलवाद को (बढ़ने) दिया। यह कांग्रेस ही थी जिन्होंने हमें गरीबी और भ्रष्टाचार दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लूटने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने व्यापक रूप से विरोध के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। आदित्यनाथ ने पार्टी को देश के विकास में एक बाधा बनने के लिए खारिज कर दी है। कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को तोड़ने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन वास्तव में देश की महासमस्या है। जाति-आधारित जनगणना की कांग्रेस की गंगा का फिल्टर करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का सर्वेक्षण कराए जाने के बाद यह हिंदू समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस फिर मुसलमानों को कोटा देगी जिससे भारत के इस्लामीकरण की रूपरेखा तैयार हो जाएगी।

### कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की ओर से दिए जा रहे बयानों का उड़ाया मजाक

एजेसी नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने का भरपूर जताते हुए बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हताश, निराश हैं और हार मान चुके हैं। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन चुनावों में हार के डर से मोदी अपने पद की गरिमा भूल गए हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं तथा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र, लोगों के घर के कपरे या धंसें छिन लेंगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए: कांग्रेस आपके घर का कमरा छिन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छिन लेगी, कांग्रेस आपकी बैंस छिन लेगी। गांधी ने कहा, नरेन्द्र मोदी ऐसी बहकी-बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीट छिनकर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं।

उन्होंने कहा, ...इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हे देगी- उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटया है। हमारी सरकार




अडानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया कि कांग्रेस अगली सरकार बनाने की राह पर है। खेड़ा ने कहा, आज गुजरात में प्रधानमंत्री ने जोर-शोर से घोषणा की कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो 272 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए दावा किया कि जब उसने 272 सीट पर उम्मीदवार भी नहीं उतारे हैं तो सरकार कैसे बनाएगी।

खेड़ा ने कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, कम से कम यह स्वीकार करने के लिए कि हम सरकार बनाने की राह पर हैं। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमने पहले ही 326 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

## महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती भाजपा: शाह फतवे और फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा देश: अनुराग ठाकुर

एजेसी हुबली

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल (सेकुलर) के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौव उर्पीड़न के आरोपों का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वोक्कालिगा समुदाय बहुल क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होने तक हासन सीट से सांसद प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक



एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। उन्होंने जद (एस) के टिकट पर इस बार भी हासन से चुनाव लड़ा है।

चुनाव से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कथित तौर पर प्रज्वल

से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी के अनुरोध पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। रेवन्ना और प्रज्वल की पूर्व रसोइया और रिश्तेदार की शिकायत पर उनके खिलाफ होलेनारासीपुरा में यौव उर्पीड़न का मामला दर्ज किया। पॉइन्टा ने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक तरीके से बात की, जिसके कारण बेटी को प्रज्वल को ब्लॉक करना पड़ा।

उन्होंने कहा, 'हमारा (भाजपा) का जद(एस) के साथ गठबंधन है। अब

(प्रज्वल) रेवन्ना की सीडी आई है। उसने (कांग्रेस) को सोचा कि वह भाजपा को धेर सकती है। मैं यहां यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि भाजपा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में है और उसे कार्रवाई करनी चाहिए थी। शाह ने जनसभा में कहा, वोक्कालिगा समुदाय बहुल क्षेत्र में चुनाव खत्म होने तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने राजनीति की और उसे (प्रज्वल रेवन्ना) को भागने दिया। हिम्मत है तो सब बोलिए। आपकी वजह से एक जनघन अपराधी देश छोड़कर भाग गया।

**सिटी दर्पण**  
लखनऊ

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान कहा यह देश किसी फतवे या फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। मोदी जी के 10 वर्षों के सेवा, सुरासन और गरीब कल्याण के बाद अब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की राजनीति नहीं चलने वाली। अनुराग सिंह ठाकुर ने बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी के नामांकन व रोड शो में उपस्थित रह कर विशाल जनसभा को संबोधित किया व



साथ ही दुमरियागंज सांसद जगदीशका पाल जी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया।

अनुराग ठाकुर ने यह बातें उत्तर प्रदेश के बस्ती में कहीं जहां कुछ नेताओं द्वारा लोगों से वोट जिहाद करने की मांग की खबरें सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य अब जिहाद और फसाद में नहीं है। ऐसी बातें करने वालों का भविष्य अब खुद खतरे में आने वाला है क्योंकि आज दिल्ली में गोरी, गजनवी

और मुगलों का शासन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों द्वारा संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार का शासन है। उत्तर प्रदेश में दो शहजादे फिर से जाति, धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर जनता को ठगने निकले हैं। मगर देश और उत्तर प्रदेश का भरोसा सिर्फ मोदी जी की गारंटी और कमल निशान पर है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है इसीलिए उसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा और कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों बहनों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दिया।

## खरगे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, संविधान बचाने के लिए लोगों से एकजुट होने को कहा

एजेसी यादगिर

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को मतदाताओं से मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने का आान किया और उनसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनकर देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। खरगे यहां कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत सात मई को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी हर बात पर हिंदू-मुसलमान करते रहते हैं,

यह (यादगिर) निजाम (हैदराबाद) की रियासत का एक हिस्सा था। यहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे और एक-दूसरे के पर्वों को एक साथ मनाते रहे हैं। यहां कई हिंदुओं के नाम मुस्लिम नाम की तरह थे, उदाहरण के तौर पर नवाज रेड्डी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहां कभी भी (समुदायों के बीच) झगड़े नहीं हुए। मोदी द्वारा पैदा करने आए हैं। जो लोग एक-दूसरे पर भरोसा करके साथ रहे रहे हैं, उनके बीच मोदी द्वारा पैदा कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना करना चाहती है। उन्होंने कहा, इसका मकसद यह जानना है कि एक परिवार में कितने स्नातक हैं, यह जानना है कि परिवार के पास जमीन है या नहीं? उनकी आय क्या

है? यह जानने के लिए हम जाति जनगणना करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन, मोदी लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस एक्स-रे कराना चाहती है। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस

यह जानना चाहती है कि प्रत्येक परिवार के पास कितना सोना और जमीन है। वह कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा।


उन्होंने कहा, हमारे पास संविधान और हमें इसकी सुरक्षा प्रदान है। हम इसे (जाति जनगणना) करेंगे। ये लोकतंत्र है मोदी जी, तानाशाही या निरंकुशता नहीं। मुझे नहीं पता

कि आप भ्रम में हैं या किसी ओर चीज में। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पार्टी के अन्य नेता इस दौरान वह खुद भी और भाजपा, दोनों ही हर चीज का श्रेय मोदी को देते हैं।

उन्होंने कहा, वे (भाजपा) कहते हैं मोदी की गारंटी। कहां है मोदी की गारंटी? हमारी गारंटी लोगों तक पहुंची है और आप लोग इसके साथ हैं, लेकिन मोदी की गारंटी कहां है? उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियां, हर बैंक खाते में 15 लाख रुपये देने का वादा किया था- क्या ऐसा हुआ? वह (मोदी) कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते, केवल झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम सुलिला सरदार (झूठ का भगवान) रख दिया है।

निशाना बनाना है। खरगे ने कहा, हम मोदी को निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उनका नाम लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मौजूद रहे। खरगे ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई पांच गारंटी महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए की गारंटी। कहां है मोदी की गारंटी? हमारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सरकार की सराहना की।

उन्होंने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां अपने वादों को पूरा किया है, किया था- क्या ऐसा हुआ? वह (मोदी) (भाजपा) की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बोलने के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, मोदी का काम कांग्रेस, गांधी परिवार और मुझे





# युवा नेताओं को हमारे देश की राजनीति का नेतृत्व करना चाहिए: भगवंत मान

दलवीर गोल्डी अपने परिवार और सैकड़ों साथियों सहित आप में हुए शामिल, सीएम भगवंत मान ने पार्टी में किया स्वागत

दलवीर गोल्डी ने मेहनत से पंजाब की राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन जब आपकी पार्टी आपकी मेहनत की कद्र नहीं करती तो दिल टूटता है: सीएम मान



सिटी दर्पण चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने संगरूर में कांग्रेस और सुखपाल सिंह खैरा को बहुत बड़ा झटका दिया है। बुधवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता दलवीर सिंह गोल्डी अपने पूरे परिवार और संगरूर के सैकड़ों साथियों के साथ आप के पंजाब अध्यक्ष व सीएम भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री व आप के संगरूर से उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीत हेयर की मौजूदगी में आप में शामिल हो गए। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी के लिए आज एक विशेष दिन है क्योंकि एक युवा, उत्साही और मेहनती नेता दलवीर सिंह गोल्डी आप में शामिल हो रहे हैं। भगवंत मान ने गोल्डी का आप में स्वागत किया और उन्हें आप का मफलर पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया। सीएम मान ने धूरी से उनके खिलाफ 2022 का

विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दलवीर गोल्डी को गले भी लगाया। दलवीर सिंह गोल्डी खुरा (41), पूर्व विधायक धुरी (2017-22), एक छात्र राजनीतिज्ञ थे। वह एस.डी. कॉलेज के 2002 में कॉलेज प्रतिनिधि थे। 2003-04 में वह रडठव (स्टूडेंट यूनिन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी) के अध्यक्ष बने। 2006-07 में वह पंजाब यूनिवर्सिटी के पस स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने और 2007 में कांग्रेस से शामिल हो गए। उन्होंने धुरी से 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा और 2,838 वोटों से जीते। 2022 में वह सीएम भगवंत मान से यह सीट हार गए और बाद में संगरूर लोकसभा उपचुनाव भी लड़े। मान ने कहा कि 'रंगला पंजाब' के सपने को पूरा करने के लिए हमें कई युवा, मेहनती, ईमानदार और देशभक्त नेताओं की जरूरत है, जो पंजाब की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो उन्हें

पता था कि अन्य पार्टियों में कुछ अच्छे और ईमानदार नेता हैं जो बेहतर की लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए हमारी पार्टी उन नेताओं को एक मंच देगी, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने राज्य की सेवा कर सकें। दलवीर गोल्डी छात्र राजनीति से आये थे। जब मैं संगरूर से सांसद था, वह विधायक थे, हमारे रास्ते अक्सर मिलते-जुलते थे, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग-अलग पार्टियों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मान ने कहा कि विधायक और सांसद किसी पार्टी के नहीं होते, चुनाव परिणाम आने के बाद वह सभी के विधायक और सांसद होते हैं। जैसे मैं हर किसी का मुखमंत्रि हूँ, उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मान ने कहा कि दलवीर गोल्डी एक मेहनती नेता हैं। वह एक सामान्य परिवार से आए और विधायक बने। उन्होंने कहा कि हर पार्टी कहती है कि छात्रों और युवाओं को सक्रिय राजनीति

में आना चाहिए लेकिन जब युवा नेताओं के काम को पुरस्कृत करने की बात आती है तो वे अक्सर पीछे हट जाते हैं। जब युवा नेताओं को कुछ देने की बात आती है तो पारंपरिक राजनीतिक दल अपने से ऊपर उनके परिवार, रिश्तेदारों और पुराने राजनेताओं को चुनते हैं। मान ने कहा कि गोल्डी ने अपनी मेहनत के दम पर कांग्रेस और पंजाब की राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन जब कोई पार्टी ऐसे नेताओं को नजरअंदाज करती है तो उनका दिल टूट जाता है। जब किसी के काम का फल चांदी की थाली में रखकर किसी और को दिया जाता है, तो यह निराशाजनक होता है। मान ने कहा कि वह अपने छोटे भाई के रूप में दलवीर गोल्डी का आप में स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में हाईकमान या बॉस कल्चर नहीं है, हम एक परिवार हैं। हमारे पास संगरूर में मीत हेयर जैसा युवा नेता है जो दूसरी बार विधायक और कैबिनेट मंत्री है और अब हमारे पास एक और युवा नेता

दलवीर गोल्डी हैं, वे संगरूर में मेरी दो बाहों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गोल्डी का आप में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वह संगरूर के एक ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता हैं। मान ने कहा कि हमारी पार्टी से आज इतने सारे युवा नेता विधायक हैं। पंजाब के लोगों ने पंजाब की राजनीति में पीढ़ी बदल दी है। वे नेता पंजाब को फिर से रंगला बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपने जुनून और समर्पण से नई इबारत लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है, लेकिन हमारे बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मान ने कहा कि अगर कोई पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता है तो उन्हें मौका और मंच देने में उन्हें खुशी होगी। मान ने कहा कि हमारी राजनीति को ऐसे युवा चेहरों की जरूरत है जो शिक्षित हों और आम लोगों की समस्याओं से अवगत हों और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सकें। मान ने कहा कि गोल्डी पर आप में

शामिल होने का कोई दबाव नहीं है, वह ऐसी पार्टी में आ रहे हैं जो उनके जैसे युवा नेताओं को मंच देती है। मान ने कहा कि दलवीर गोल्डी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है बल्कि कांग्रेस ने गोल्डी को छोड़ा है। सुखपाल सिंह खैरा पर हमला करते हुए मान ने कहा कि पिछली बार जब उन्हें 19 हजार वोट भी नहीं मिले तो उन्होंने बटिंडा के लोगों से माफ़ी मांगी थी, इस बार 4 जून को वह संगरूर के लोगों से माफ़ी मांगेंगे। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए दलवीर गोल्डी ने कहा कि वह भगवंत मान के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें एक सक्षम नेता माना और मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनने का मौका दिया। गोल्डी ने कहा कि मैंने भगवंत मान जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मेरी पिछली पार्टी मेरे काम और आम लोगों में सम्मान के कारण असुरक्षित थी, लेकिन यह मान साहब की महानता है कि वह अपनी पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी द्वारा दिये गये हर कर्तव्य

और जिम्मेदारी को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवंत मान सांसद थे और वह विधायक थे, तब भी वह उनसे एक कबड्डी टूर्नामेंट में मिले थे, तब भगवंत मान ने उनके अच्छे कामों के लिए उनकी सराहना की थी और कहा था कि अगर उन्हें (गोल्डी को) किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बताएँ। गोल्डी ने कहा कि भगवंत मान ने उनके जैसे युवा नेताओं के लिए रास्ते खोले। उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवा राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई मंच नहीं है और पंजाब को रंगला बनाने के लिए उन्हें एकजुट होकर आप में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास सुखपाल खैरा का वीडियो है जिसमें वह संगरूर के 10 गांवों का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, यही समस्या है कि कांग्रेस पार्टी में योग्य नेताओं की जगह अयोग्य लोगों को मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि

उन्होंने और उनकी पत्नी ने टिकट के लिए आवेदन किया था क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि उन्हें 6 महीने से अधिक समय से पता था कि वह संगरूर से चुनाव लड़ेंगे। गोल्डी ने कहा कि यह उनके जैसे युवा नेता के लिए हतोत्साहित करने वाला है, जिन्होंने हर दिन काम किया और उपचुनाव के बाद से संगरूर से लड़ने की तैयारी की। गोल्डी ने कहा कि वह कांग्रेस के सारे गंदे राज उजागर करेंगे कि कैसे उन्होंने इतने सारे घर बर्बाद कर दिए, कैसे यह 5-7 लोगों का समूह है जो सब कुछ आपस में बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं बल्कि उन्हें कांग्रेस से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 2022 में उपचुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया जब बाकी सभी ने इनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बात टिकट और पद की नहीं है, कभी-कभी बात स्वाभिमान की होती है।

## नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने राज्य भर में नशा तस्करी वाले संभावित स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान

सिटी दर्पण चंडीगढ़

राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और लालच रहित लोक सभा चुनाव को सुनिश्चित बनाने के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में नशा तस्करी से सम्बन्धित स्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में एक विशाल राज्य स्तरीय घेराबन्दी और तलाशी अभियान (सी.ए.एस.ओ.) चलाया। यह अभियान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के दिशा-निर्देशों पर सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक राज्य भर में एक ही समय चलाया गया। स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि सीपीज/एसएसपीज को कहा गया था

31 एफआईआर दर्ज करने के उपांत 22 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार; 2.95 किलो हेरोइन, 36 हजार रुपए की ड्रग मनी, 21.5 किलो गुक्की की बरामद पंजाब पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी और लालच रहित लोक सभा चुनाव करवाने को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध

कि वह ड्रग हॉटस्पॉट्स-जैसे उनके सम्बन्धित जिलों में नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री के स्थानों या नशा तस्करो के लिए पनाहगाह/सुरक्षित स्थानों, की पहचान करके इस कार्यवाही की सावधानी से योजना बनाएं। यह ऑपरेशन एसपी रैंक के अधिकारी की निगरानी अधीन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ करवाया गया। उन्होंने कहा कि सीपीज/एसएसपीज को यह भी हिदायत की गई थी कि वह एनडीपीएस

घेराबन्दी की और एनडीपीएस के अंतर्गत नामजद और जमानत पर बरी हुए 864 व्यक्तियों की जांच भी की गई। आपरेशन के दौरान, पुलिस ने 31 एफआईआर दर्ज की और 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के अलावा, एक भण्डा (पीओ) को भी हिरासत में लिया। इस सम्बन्धी नतीजे साझे करते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीमों ने 2.95 किलोग्राम हेरोइन, 36000 रुपए की ड्रग मनी, 100 ग्राम अफीम, 21.5 किलो गुक्की और बड़ी मात्रा में लाहन, और अवैध शराब के अलावा गोला-बारूद समेत दो पिस्तौलें भी बरामद की हैं। जिक्रयोग्य है कि जिला पुलिस बलों ने डेटा विश्लेषण के द्वारा नशों के हॉटस्पॉट्स की पहचान करने के बाद ही यह ऑपरेशन चलाया गया।

सिटी दर्पण लुधियाना

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से से पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि लुधियाना को जल्द ही उस रगुमशुदा सांसद से छुटकारा मिल जाएगा जिसे शहरवासी पिछले दस वर्षों से झेल रहे हैं। वडिंग ने यहां एक बयान में कहा, रगुमशुदा के पूरी तरह से गायब होने की अंतिम उलटी गिनती शुरू हो गई है और केवल 34 दिन और बचे हैं, चुनाव के बाद के बाद 4 जून को लोगों को उनसे छुटकारा मिल जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि दस साल तक लुधियाना के लोगों को अपने



उन्हें देख नहीं सकता था और कोई उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता था", उन्होंने कहा कि बिट्टू की विशेषता यह कि वह न तो चुनाव क्षेत्र में कहीं दिखे और फोन का जवाब देना तो दूर की बात है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से अपने लिए आवास आवंटित कराने के बावजूद बिट्टू ने वहां कभी किसी कार्यकर्ता या जनता से मुलाकात नहीं की, उनकी समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात है। वडिंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि बिट्टू को खुद इसका एहसास और समझ नहीं था। वारिंग ने बिट्टू के बारे में कहा, रवह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म इस

बार उनके सामने आएंगे और इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का विकल्प चुना, उन्होंने आगे कहा, रआप कभी-कभी कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि एक जून को बिट्टू के फैसले का दिन नजदीक आ रहा है, जब लोग उन्हें उनके बड़े विश्वासघात के लिए जवाब देंगे। ह्रसवसे पहले, उन्होंने चुनावों के बाद गायब होकर दस साल तक लोगों को धोखा दिया, फिर अंतिम विश्वासघात तब हुआ जब उन्होंने उसी पार्टी और उन्हीं लोगों को धोखा दिया और उनका साथ छोड़ दिया, जिन्होंने उन्हें लगातार तीन बार संसद में भेजा था।

## लुधियाना के लोगों को जल्द मिलेगा गुमशुदा सांसद से छुटकारा: वडिंग

## एस.जी.पी.सी मैबर सुरजीत सिंह गढ़ी दोबारा अकाली दल में शामिल



सिटी दर्पण रामपुरा

शिमोगी अकाली दल को आज उस समय बहुत बड़ा बढ़ावा मिला जब पटियाला संसदीय क्षेत्र से वरिष्ठ नेता और शिमोगी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैबर जयदेव सुरजीत सिंह गढ़ी आज अपने समर्थकों के साथ पार्टी में पुनः शामिल हो गए। अकाली दल अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने गांव फतेहपुर गढ़ी में जयदेव गढ़ी के आवास पर उनका अकाली दल में स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते

हुए जयदेव गढ़ी ने कहा कि उन्हें विश्वास है शिमोगी अकाली दल के अलावा किसी अन्य पार्टी ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय पार्टियों ने हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम किया है। मैं पंजाबियों से अपील करता हूँ कि वे राज्य के सभी लॉबित मुद्दों को हल करने के लिए अकाली दल को पूरा समर्थन दें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह और उनकी टीम पटियाला संसदीय क्षेत्र से एन.के. शर्मा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

## मदद ग्रामीण महिलाओं को वोट का महत्व बताएंगी दिशा वूमैन वैलफेयर ट्रस्ट

## अब पति, भाई या बेटा नहीं करेगा महिलाओं की वोट का सौदा

सिटी दर्पण चंडीगढ़

चुनाव आयोग द्वारा अबकी बार 70 पार के नारे के साथ वोट प्रतिशता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों में अब दिशा वूमैन वैलफेयर ट्रस्ट भी भागेदार बनेगी। ट्रस्ट द्वारा पंजाब की ग्रामीण महिलाओं को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करेगी। इसके लिए पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदीप कौर विर्क ने आज पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी से मुलाकात के बाद बताया कि दिशा वूमैन वैलफेयर ट्रस्ट की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब के विभिन्न जिलों में वोट को लेकर सर्वे किया गया। जिसके माध्यम से पता चला कि देश के सबसे खुशहाल प्रांत पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं किसको वोट



देगे वह उनके पति, पिता, भाई या बेटे ही तय करते हैं। महिलाओं को अपनी इच्छा से देश की सरकार चुनने का भी अधिकार नहीं है। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं के हित में महिला पंचायतों का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। हरदीप कौर विर्क ने बताया कि

इन महिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को जहां वोट के अधिकार तथा वोट के महत्व के बारे में बताया जाएगा वहीं उन्हें बताया जाएगा

कि वह कैसे वोट करती हैं इसका फैसला करने का अधिकारी केवल उन्हें है। महिला एक्टिविस्ट हरदीप विर्क ने बताया कि इससे लिए पंजाब की राजनीतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध बटिंडा, सिल्लिकान सिटी मोहाली, शाही शहर पटियाला में महिला पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रशासन के स्वीप अधिकारियों को बुलाया जाएगा वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के महिला प्रकोष्ठों की जिला अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। ग्रामीण महिलाएं इन महिला जिला अध्यक्षों के समक्ष अपना एजेंडा पेश करेंगी। इन पंचायतों से आने वाले सुझावों को एक ज्ञापन की शकल देकर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सौंपा जाएगा ताकि वह इसे अपने घोषणा पत्रों में शामिल कर सकें। हरदीप विर्क ने कहा कि पंजाब में अपनी तरह का पहला आयोजन होने

जा रहा है जिसमें महिला पंचायत के माध्यम से महिलाएं अपनी बात रखेंगी। इस पंचायत में महिलाओं से स्वीप गतिविधियों, वोटिंग के अधिकार आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाली महिलाओं को ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया जाएगा।

**सिटी दर्पण**  
 चंडीगढ़  
 न्यूमोपक: स्व. कृष्णा शर्मा  
 स्व. गीता शर्मा  
 संस्थापक: सतपाल शर्मा  
 स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक: पुनीत शर्मा  
 द्वारा ईशरान प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित  
 सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।  
 स्थानीय कार्यालय  
 801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।  
 संपर्क: 7888450261  
 Email: citydarpan1@gmail.com



# मोदी के 10 साल कांग्रेस के 60 सालों पर भारी : मनोहर लाल

## नीलोखेड़ी विधानसभा के निसिंग में मनोहर की चुनावी रथयात्रा समाप्त, मिता भारी जनसमर्थन

**सिटी दर्पण** 

क रनलाल

पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनलाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल की चुनावी रथयात्रा का जगह-जगह ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का नीलोखेड़ी विधानसभा के निसिंग क्षेत्र में समापन हुआ। जगह-जगह मनोहर लाल को भारी जनसमर्थन मिला और ग्रामीणों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया।

इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की भलाई के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। कल्याणकारी योजनाएं चलाए और मोदी जी ने इनने काम किए कि जो कांग्रेस पिछले 55 से 60 सालों से नहीं कर पाई। इन्हीं कार्यों को देखते हुए और मोदी जी को बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आज कांग्रेस में बौखलाहट की स्थिति है। इसी तरह प्रदेश सरकार ने साढ़े 9 साल जनता की सेवा की है और यह कार्य जारी रहे इसके लिए इस बार



भी जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनेगी।

मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साढ़े वर्षों में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा। पहले 2014 से प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार चरम पर था सरकार ने उसे समाप्त किया। पहले नौकरियां बिकती थी आज बिना

## हरियाणा

कलेक्शन सर्वाधिक है। जब से भाजपा की सरकार आई है देश की जनता खुशहाल है। सरकार ने सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजो सहित सभी क्षेत्रों में आधुनिक तरीके से काम करवाया। प्रदेश में हवाई अड्डे बनवाए गए। हवाई पट्टियों को मजबूत किया जा रहा है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए जनता इस बार भी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनेगी।

मनोहर लाल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दो सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई थी। पहले नंबर पर गुजरात में भाजपा की लोकसभा सीट थी। अबकी बार जनता पिछले बार का भी रिकार्ड तोड़ेगी। जनता प्रदेश की सभी सीटें नरेंद्र मोदी की झेंदली में डालने का काम करेगी। इस अवसर पर करनलाल लोकसभा संयोजक एवं धरौंडा के विधायक हरविंद कल्याण, भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, पूर्व विधायक भगवानदास कबीरगंभी, शिव नाथ कपूर, अमरनाथ सोदा, सुभाष चंद्र, मीना चौहान, जनक पोपली सहित अन्य मौजूद रहे।

## सैलजा ने सिरसा लोकसभा सीट किया किया नामांकन पत्र दाखिल

**सिटी दर्पण** 

चंडीगढ़। सिरसा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस (इंडिया गठबंधन) की प्रत्याशी कुमारी सैलजा कुमारी सैलजा ने बुधवार को सिरसा लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे गोल डिग्री चौक स्थित कांग्रेस भवन से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और समर्थकों-कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ वे लघु सचिवालय पहुंचीं। जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कुमारी सैलजा के काफिले में शामिल होकर अपना उत्साह दिखाया। इससे पहले दो आजाद उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र हाा है। अब 6 मई तक कई और नामांकन भरे जाएंगे। बीजेपी, जजपा, इनेलो व बसपा के प्रत्याशियों ने अब तक अपना नामांकन



नहीं भरा है। पार्टियों की तरफ से नामांकन भरने वालों में कुमारी सैलजा ने पहला नामांकन भरा है। इस अवसर पर सिरसा के अलावा फतेहाबाद के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

कुमारी सैलजा सबसे पहले कांग्रेस भवन में पहुंची जहां पर उनके कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। कांग्रेस भवन के सभी ओर और सभी भागों पर वाहनों की कतारें लगी हुई थी। जहां से काफिल के साथ वे लघु सचिवालय पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। कांग्रेस भवन से लघु सचिवालय तक सड़को के दोनों ओर उनके समर्थक खड़े

## चुनाव प्रक्रिया के दौरान एमसीएमसी रखेगी पेड न्यूज पर नजर : जिला निर्वाचन अधिकारी

**सिटी दर्पण** 

क रनलाल

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि लोकसभा व करनलाल विधानसभा उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का

आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट

लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को तीन दिन पहले और बाकी उम्मीदवारों को सात दिन पहले कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर दो दिन में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी।

चंडीगढ़। वीरवार, 2 मई, 2024 **3**



भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी के लिए वोट की अपील की। कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों ने कहा कि वे मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे।

सुमन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की भलाई के लिए कार्य किया और ऐतिहासिक निर्णय लिए। केंद्र में 10 साल और प्रदेश में साढ़े 9 सालों तक भाजपा की बेदाग छवि की सरकार रही है। भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया। इन्हीं कार्यों को लेकर आज वे जनता के बीच में हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में युवाओं के साथ अत्याचार होता था। युवाओं की आवाज को दबाया जाता था। लेकिन

### संक्षिप्त-समाचार

### जिला में चल रहे यतीमखानों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

करनलाल। जिला बाल संरक्षण अधिकारी करनलाल रीना ने जानकारी देते हुए बताया कि करनलाल जिले में चल रहे सभी यतीमखानों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला में 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे यदि किसी भी यतीमखाना अथवा संस्था में रहते हैं, तो उस संस्था/यतीमखाना का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि जिले में कोई ऐसा यतीमखाना अथवा संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकरण करवाए बिना चल रही है, तो उस संस्था/यतीमखाने पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 42 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पीसीओआई सुमन ने बताया कि बिना पंजीकरण के चल रही संस्था/यतीमखाना की सूचना देने व पंजीकरण करवाने के लिए जिला बाल संरक्षण यूनिट करनलाल के कार्यालय सैक्टर-4, फायर स्टेशन पहली मंजिल करनलाल में संपर्क कर सकते हैं।

### करनलाल में 7 लाख 39 हजार 191 मीट्रिक टन गेहूं की आवक : उपायुक्त उत्तम सिंह

करनलाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा खरीद के सभी आवश्यक प्रबंध पहले से ही किए जा चुके हैं। गत दिवस तक जिला की मंडियों व विभिन्न खरीद केंद्रों पर 7 लाख 39 हजार 191 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जिसे सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा गया। एजेंसियों को उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गत दिवस तक 7 लाख 39 हजार 191 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई। इसमें से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 2 लाख 90 हजार 473 मीट्रिक टन, हेफेड द्वारा 3 लाख 84 हजार 155 मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयर हाऊस कारपोरेशन द्वारा 64 हजार 563 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। व्यापारियों द्वारा 8 हजार 360 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि क्रमानुसार ही गेहूं को मंडी में लेकर आए ताकि एजेंसियों एवं आढ़तियों को खरीद में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने यह भी अपील की कि खेतों में फसल कटाई के बाद फलों में आग न लगाएं।

### बाइक की सर्विस करवाने गए दो दोस्तों पर हमला कर किया घायल

जीद। सफीदों रोड पर बाइक की सर्विस करवाने आए दो दोस्तों पर तेजगढ़ार हथियार से हमला कर घायल कर दिए। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सुंदरपुरा निवासी मोहित को नामजद कर छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में निर्जन निवासी अजय ने बताया कि वह अपने दोस्तों अकुंश के साथ सफीदों रोड पर बाइक की सर्विस करवाने के लिए गए थे। इस दौरान दुकान पर सुंदरपुरा निवासी मोहित अपने छह दोस्तों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। उन्होंने आते ही बाइक के मिस्ट्री नबीन पर हमला कर दिया। इस दौरान जब उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो मोहित ने उसकी बाजू व कंधे पर चाकू से वार किए। इसके बाद दुकान में भी तोड़फोड़ की। जब आरपاس के लोगों ने आरोपियों के वंगुल से बचाने का प्रयास किया तो आरोपी उनको जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मोहित को नामजद कर छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## सिरसा लोकसभा से लाखों वोटों से विजयी होगी कुमारी सैलजा: नमन केडिया

**सिटी दर्पण** 

सिरसा

हमीरपुर लोकसभा प्रभारी व हरियाणा यूथ कांग्रेस के सचिव नमन केडिया ने दावा किया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगी। नमन केडिया कुमारी सैलजा के समर्थन में वोटों की अपील करने के लिए गांवों में जनसंपर्क कर रहे थे। उन्होंने सिरसा पहुंचने पर कुमारी सैलजा का भव्य स्वागत भी किया। और शहीद मदन लाल ढींगरा चौक पर उनका अभिवादन किया। लोगों से संपर्क करते हुए नमन केडिया ने कहा कि आज पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरा देश तानाशाही शासन, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, जनभावनाओं के विपरीत किए जाने वाले कार्यों से बुरी तरह परेशान है।



आज महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अपने साधनों में पेटेडोल डलवाते हुए खून के आंसू रोंते हैं। मोदी के राज में देश को एक तरह से धनासेतो के यहाँ गिरवी रख दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा ने सड़क से संसद तक जनता की आवाज को पुनर्जो तरीके से उठाया है। सिरसा लोकसभा से उनका दर्शनो पुराना नाता है। यहां के सुख-दुख उनके सांझे हैं। अपने हर कार्यकर्ता के साथ वे सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हैं। आज वक्त आपकी चौखट पर दस्तक देने आया

### मिनी बाईपास के आरयूबी पर शुरू हुई लाइटें

**सिटी दर्पण** 

जीद

पिछले कई सालों से बंद पड़ी रोहतक रोड मिनी बाईपास पर बने आरयूबी की लाइटें फिर से शुरू हो गई हैं। नप के प्रयासों से यह लाइटें जगमग हो पाई हैं। जीद विकास संगठन के अध्यक्ष डा. राजकुमार गोयल ने इसके लिए प्रशासन का आभार जताया है। राजकुमार गोयल ने कहा कि रोहतक रोड मिनी बाईपास पर अंडरब्रिज के नीचे लगी लाइटें पिछले लम्बे समय से खराब पड़ी थी। इस बारे में नगर परिषद को कई बार लाइटें ठीक करवाने को कहा गया तो नगर परिषद का जवाब था कि अंडरपास के नीचे की लाइटें पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर आती है। उधर, जब पीडब्ल्यूडी विभाग को यह लाइटें ठीक करवाने को कहा गया तो उनका जवाब था कि ये लाइटें नगर परिषद के अंडर आती है। दोनो विभाग लाइटें ठीक करवाने के नाम पर ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे थे। कोई भी लाइटें ठीक करवाने को तैयार नहीं था। गोयल का कहना है कि बिना लाइटों के यहां से रात के अंधेरे में बहु बेटियों से

निकलना दूभर हो हो रहा था। नशेडिओं द्वारा यहां रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए राहगीरों को तंग करने के कई मामले भी सामने आ चुके थे। ऐसे में जनमानस को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार इस मामले में जीद के डीसी से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। डीसी से मांग की गई कि दोनों विभागों में से कोई भी लाइटें ठीक करवाने को तैयार नहीं है। बिना लाइटों के हर रोज राहगीरों कानिकलना दूभर हो रहा है। ये लाइटें ठीक करवाने में कई लाखों रुपये खर्च नहीं आने। हजारों रुपये में लाइट लग जानी है और यहां उजाला हो जाना है।

### नामांकन

## दिव्यांशु बुद्धिराजा और त्रिलोचन सिंह का नामांकन करवाने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौ. उदयभान

**सिटी दर्पण** 

क रनलाल

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान आज करनलाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा का नामांकन करवाने पहुंचे। साथ ही उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी त्रिलोचन सिंहा का भी नामले भी सामने आ चुके थे। ऐसे में जनमानस को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार इस मामले में जीद के डीसी से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। डीसी से मांग की गई कि दोनों विभागों में से कोई भी लाइटें ठीक करवाने को तैयार नहीं है। बिना लाइटों के हर रोज राहगीरों कानिकलना दूभर हो रहा है। ये लाइटें ठीक करवाने में कई लाखों रुपये खर्च नहीं आने। हजारों रुपये में लाइट लग जानी है और यहां उजाला हो जाना है।

हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पास सबसे बड़ा

हथियार उसका घोषणा पत्र और कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसलिए इन्हें घर-घर व जन-जन तक पहुंचाना प्रत्येक कांग्रेसजन की जिम्मेदारी है। हुड्डा ने बताया कि देश में कांग्रेस सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियां, किसानों को एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को 1 लाख सालाना, दलित-पिछड़ों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। साथ ही हरियाणा में सरकार बनने पर 2 लाख से ज्यादा मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से पक्की नौकरियां दी जाएगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और बुजुर्गों को 6000 पर बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। गरीबों के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट आवंटन की योजना 500 से शुरू होगी। महिलओं को ₹500 में गैस सिलेंडर और हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

इस मौके पर चौधरी उदयभान ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आलोचना करने



की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। बल्कि वह अपनी नीतियों का एक खाक भी जनता के सामने पेश कर रही है। बीजेपी ने पेपर लीक, भर्ती घोटालों, अनिवीर और कोशल निगम के जरिए जिन पढ़े-लिखे युवाओं को प्रताड़ित किया, उन युवाओं को कांग्रेस पेपर

मिल रहा है। खासतौर पर युवा वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमेशा युवाओं के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ी। अब इसी लड़ाई को वो लोकसभा में लड़ेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे।

त्रिलोचन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदलकर पहले ही अपनी हार मान ली है। बीजेपी ने खुद मान लिया है कि मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह विफल रहे। लेकिन उनकी विफलताओं का खा미याजा पूरे हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा करनलाल को भुगतना पड़ा। इसलिए जनता बीजेपी से वोट की बातचीत से बदला लेगी। जनता अब भविष्य की सरकार को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और करनलाल को जीत इस सरकार की नींव रखेगी।



## संपादकीय

## मुद्रास्फीति



भारत में खाद्य और ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव अस्वाभाविक नहीं है। खाद्य कीमतों का निरंतर बना रहने वाला दबाव हेडलाइन मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी कीमतों का झटका किस प्रकार मुद्रास्फीतिक नतीजों के प्रबंधन की राह में रोड़ा बन सकता है। मुद्रास्फीति संबंधी नतीजे अपेक्षाकृत अनुकूल हो चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (फ़डक) की मौद्रिक नीति समिति (टडउ) का अनुमान है कि चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर औसतन 4.5 फीसदी रह सकती है। इस स्थिति में भी यह 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर रहेगी। यह सही है कि मौद्रिक सख्ती और कच्चे माल की लागत में कमी के कारण कोर मुद्रास्फीति की दर 4 फीसदी से कम हुई है लेकिन खाद्य कीमतों के क्षेत्र में बार-बार बनने वाला दबाव हेडलाइन मुद्रास्फीति दर को कोर स्तर तक पहुंचने से रोकता है। दिसंबर के 5.7 फीसदी के स्तर से गिरावट के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर जनवरी-फरवरी 2024 में 5.1 फीसदी रही। जनवरी में गिरावट के बाद खाद्य मुद्रास्फीति की दर फरवरी में 7.8 फीसदी तक जा पहुंची। ऐसा प्राथमिक रूप से सब्जियों, अंडों, मांस और मछलियों की कीमतों की बढ़ोतरी हुआ। मौद्रिक नीति के नजरिये से देखें तो यह समझना आवश्यक है कि कैसे खाद्य या ईंधन मुद्रास्फीति की कीमतों का दबाव समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है। रिजर्व बैंक अर्थशास्त्रियों के एक शोध आलेख में इस बात की पड़ताल की गई है कि खाद्य और ईंधन की हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति का दूसरा दौर भारत में किस तरह का असर डालेगा। हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति की दरों की गति जहां परस्पर संबद्ध है, वहीं इस बात के भी प्रमाण हैं कि घरेलू मुद्रास्फीति के अनुमानों तथा खाद्य मुद्रास्फीति के बीच भी गहरा संबंध है। इसका कोर मुद्रास्फीति की दर के व्यवहार पर असर पड़ता है जो काफी हद तक आम परिवारों के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों से संचालित होती है। रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने यह भी पाया कि निकट भविष्य में कोर और हेडलाइन मुद्रास्फीति में समरूपता आ सकती है। इससे संकेत मिलता है कि गैर कोर घटकों से लेकर कोर मुद्रास्फीति तक झटके का प्रसार हो सकता है। सन 1990 के दशक के 0.37 फीसदी के उच्चतम स्तर से खाद्य मुद्रास्फीति में एक फीसदी की प्रतिक्रिया तब से लगातार कम हो रही है। 2023-24 की तीसरी तिमाही तक यह प्रतिक्रिया 0.14 फीसदी थी। इतना ही नहीं ईंधन कीमतों के झटके का कोर मुद्रास्फीति पर असर मोटे तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है हालांकि ऐसे झटके लंबी अवधि तक टिके रहते हैं। हाल के समय में कोर मुद्रास्फीति में जो गिरावट आई है, खासतौर पर 2016 में मुद्रास्फीति को लक्षित करने का लचीला ढांचा अपनाने के बाद, वह मौद्रिक नीति के लिए अहम रहा है। उसने मुद्रास्फीति के अनुमानों का बेहतर प्रबंधन किया है। इसके बावजूद चिंताएं बरकरार हैं। खाद्य और ईंधन संबंधी वस्तुओं के अधिक भार के कारण कोर मुद्रास्फीति को लगने वाले झटके बढ़ सकते हैं। हाल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी करीबी नजर डालने की आवश्यकता है। जलवायु के जल स्तर में कमी, खासकर दक्षिण के राज्यों में इसमें कमी तथा सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान भी अल्पावधि में चिंता का विषय है। बहरहाल, औसत से बेहतर वारिश के कारण कृषि उत्पादन के क्षेत्र में राहत मिल सकती है। जलवायु संबंधी झटकों के कारण निकट भविष्य में खाद्य कीमतें अनिश्चित बनी रहेंगी और यह बात मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर असर डालेगी। खाद्य कीमतों में अस्थिरता के बारे में कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही झटके लगते रहे तो भविष्य में सख्त मौद्रिक नीति की जरूरत होगी। एमपीसी की टिकाऊ ढंग से मुद्रास्फीति के 4 फीसदी के लक्ष्य को पाने की प्रतिबद्धता से अनुमानों के प्रबंधन में मदद मिलेगी और अस्थिरता में कमी आएगी।

# अक्षय तृतीया से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक, मई माह में पड़ेंगे ये व्रत त्योहार

वैशाख माह की अष्टमी तिथि से मई का महीना आरंभ हो रहा है। मई का महीना न सिर्फ त्योहारों बल्कि ग्रह गोचर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। मई माह की शुरुआत न सिर्फ कालाष्टमी से होता है बल्कि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी, परशुराम जयंती, सीट नवमी और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार पद रहे हैं। 2 मई से गुरु पंचक भी आरंभ हो रहे हैं जिससे 5 दिनों तक किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। हिन्दू पंचांग के अनुसार आइए जानते हैं मई माह में आने वाले ग्रह गोचर और व्रत त्योहार की लिस्ट।

## मई माह 2024 के व्रत त्योहार लिस्ट

तिथि	वार	त्योहार
01 मई 2024	बुधवार	मासिक कालाष्टमी व्रत, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
04 मई 2024	शनिवार	वरुथिनी एकादशी व्रत, वल्लभाचार्य जयंती
06 मई 2024	सोमवार	मासिक शिवरात्रि व्रत
08 मई 2024	बुधवार	वैशाख अमावस्या व्रत
10 मई 2024	शुक्रवार	परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, रोहिणी व्रत
11 मई 2024	शनिवार	विनायक चतुर्थी व्रत
12 मई 2024	रविवार	शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती, रामानुज जयंती, मातृ दिवस
13 मई 2024	सोमवार	स्कंद षष्ठी व्रत
14 मई 2024	मंगलवार	गंगा सप्तमी व्रत, वृषभ संक्रांति
15 मई 2024	बुधवार	मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, बगलामुखी जयंती
16 मई 2024	बृहस्पतिवार	सीता नवमी
19 मई 2024	रविवार	मोहिनी एकादशी व्रत, परशुराम द्वादशी
20 मई 2024	सोमवार	मासिक प्रदोष व्रत
21 मई 2024	मंगलवार	नरसिंह जयंती
23 मई 2024	गुरुवार	बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत
24 मई 2024	शुक्रवार	नारद जयंती, ज्येष्ठ माह प्रारंभ
26 मई 2024	रविवार	एकदंत संकरी चतुर्थी व्रत
30 मई 2024	गुरुवार	मासिक कालाष्टमी व्रत, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

## मई माह के ग्रह गोचर

तिथि	वार	ग्रह गोचर
01 मई 2024	बुधवार	बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर
03 मई 2024	शुक्रवार	बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त
10 मई 2024	शुक्रवार	बुध का मेष राशि में गोचर
14 मई 2024	मंगलवार	सूर्य का वृषभ राशि में गोचर

## व्रत त्योहार

### वैशाख अमावस्या

वैशाख मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 07 मई 2024 को सुबह 11:41 से शुरू होगी, जो अगले 08 मई 2024 को सुबह 08:51 पर समाप्त होगी। इस तरह वैशाख अमावस्या 2 दिन रहेगी, हालांकि अधिकतर जगह 8 मई को वैशाख अमावस्या मान्य होगी।

### अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया 10 मई, शुक्रवार को सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर होगा और इसका समापन 11 मई के दिन सुबह 2 बजकर 50 मिनट पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का शुभमुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 23 मिनट के बीच है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभमुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है।

### बुद्ध पूर्णिमा

वैदिक पंचांग के अनुसार, बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस

साल भगवान बुद्ध की 2586 वीं जयंती मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान होता है।

### सीता नवमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 16 मई को सुबह 06 बजकर 22 मिनट से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 मई को सुबह 08 बजकर 48 मिनट पर होगा। ऐसे में सीता नवमी का पर्व 16 मई को मनाया जाएगा।

### ग्रह गोचर

बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर  
हिंदू पंचांग के अनुसार, बृहस्पति देव का वृषभ राशि में गोचर 01 मई 2024 को दोपहर 02.29 बजे होगा। गुरु ग्रह का वृषभ राशि में गोचर जीवन में अपार समृद्धि लेकर आता है। यह जातक के जीवन में आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। वृषभ राशि में गुरु ग्रह की मौजूदगी पेशेवर जीवन में भी विशेष भूमिका निभाता है।

## आज का राशिफल

	मेष: कारोबारियों की आय में वृद्धि होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानी दूर होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका परिणाम तुरंत प्राप्त होगा। नये भावनात्मक रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। आपको मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा।
	वृषभ: युवा अपने करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आज आप अपने काम का पूरी तरह से आनन्द ले पायेंगे। कारोबार में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। अपने लाभ के लिये स्वार्थी बनना ठीक नहीं है। आज लोगों के प्रति अपना व्यवहार न बिगाड़ें। पिता की आज्ञा से किये गये कार्यों में सफलता मिलेगी।
	मिथुन: घर में आज बिना बुलाये मेहमान आ सकते हैं। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में थोड़ी अनियमितता हो सकती है। पेट में गैस की समस्या हो सकती है। मसालेदार व तामसिक भोजन का सेवन न करें। हर विषय पर आपको राय देने से बचना चाहिये।
	कर्क: आज सुबह आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिये। थकान और बुखार जैसी परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर आप काफी सक्रिय रहने वाले हैं। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।
	सिंह: आज आप धर्म-कर्म में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहेगा। किन्तु आप अनावश्यक बातों को लेकर क्रुद्ध हो सकते हैं। अपना मन शान्त रखें व अच्छी संगत में रहें। चल-अचल सम्पत्ति के विवाद शान्त होंगे।
	कन्या: व्यवसाय में बड़े अनुबन्ध मिलने की सम्भावना बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाना चाहिये। आय की दृष्टि से दिन बहुत ही उत्तम है। विरोधियों के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा। जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। सेहत की समस्या दूर होगी।
	तुला: शेयर मार्केट में कार्य कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा। आज बच्चों के ऊपर आप नाराज हो सकते हैं। मन आज थोड़ा व्यथित रहेगा। आज प्रेमी जन से बहसबाजी हो सकती है। लैन-देन के मामलों में सावधानी रखें। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
	वृश्चिक: आज महत्वपूर्ण मीटिंग आदि से बचें। कार्यक्षेत्र में लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न करें। अपनी इच्छानुसार कार्य होने से मन सन्तुष्ट रहेगा। परिवर्तनों के लिये कुछ उपहार खरीद सकते हैं। जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है।
	धनु: व्यापार में कुछ नया करने का विचार जन्म ले सकता है। बाँस आपके ऊपर कुछ ज्यादा निर्भर रहेंगे। आज किसी को धोखा न दें। रुके हुये बहुत से काम आसानी से हो जायेंगे। पिता के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा करना उत्तम होगा। लम्बी दूरी की यात्रा की योजना बना सकते हैं।
	मकर: आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रेम सम्बन्धों को लेकर परेशानी दूर होगी। घर के बुजुर्गों के विचारों का सम्मान करें। क्रोध और आवेश से आपको बचना चाहिये। लवमेट्स के साथ आप घूमने जा सकते हैं।
	कुंभ: आपका मानसिक तनाव पहले से काफी कम होगा। रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जोश में आकर कोई गलत निर्णय न लें। सभी कार्य समय पर हो जायेंगे। शाम के समय आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेगा।
	मीन: दिन का शुरुआती भाग आपके लिये बेहद सुखद रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। जीवनसाथी को लेकर थोड़ी चिन्ता रहेगी। दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। खर्च पर नियन्त्रण रखें। अपनी जीवनशैली में बदलाव न करें।

## विद्यार्थियों के जीवन को बदल सकती हैं आचार्य चाणक्य की ये बातें

आचार्य चाणक्य की गणना महान सलाहकारों में की जाती है। उन्होंने चाणक्य नीति जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, जो आज भी युवाओं का मार्गदर्शित करती है। इस नीति शास्त्र में विद्यार्थियों के लिए भी कई सफलता मंत्र हैं, जिनका पालन करने से करियर में अच्छे परिणाम मिलते हैं। दरअसल, कई बार छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आगे क्या करना है? इसका सही ज्ञान न होने के कारण कई बार छात्रों द्वारा गलत फैसले ले लिए जाते हैं। इसी पर चाणक्य नीति कहती है कि, विद्यार्थियों का जीवन सबसे अनमोल होता है। यह जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ विद्यार्थी भविष्य के लिए नई राह बनाता है। फिर उसी के आधार पर आगे का जीवन बिताता है। इस दौरान की गई गलतियाँ भविष्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपना अधिक से अधिक समय शिक्षा को देना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। आइए विद्यार्थियों के लिए चाणक्य के अन्य सफलता मंत्रों के बारे में जान लेते हैं।

### आलस का त्याग करें

आलस जीवन में सफलता के मार्ग बंद करता है। आलस करने से न केवल हानि होती है बल्कि आपके मान-सम्मान में भी कमी आती है। चाणक्य के अनुसार, विद्यार्थियों को किसी भी कार्य के प्रति आलस नहीं दिखाना चाहिए। अपने सभी कार्यों को समय के साथ ऊजावान होकर सम्पन्न करना चाहिए।

### समय का रखें ध्यान

विद्यार्थियों को अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करना चाहिए। आप योजनाबद्ध तरीके से खल-कूद व पढ़ाई का समय निकालें। ऐसा करने से आपके सभी काम समय से पूर्ण होंगे।

### अनुशासन में रहें

चाणक्य के अनुसार, विद्यार्थियों को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस गुण को अपनाने से सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

### बुरी संगत

बुरी संगत भविष्य को प्रभावित करती है। ऐसी संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। जीवन में विद्यार्थी वाला दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपके द्वारा की गई मेहनत आपको आगे फल के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए भूलकर भी बुरी संगत में न रहें।

## गंगा सप्तमी

हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, गंगा सप्तमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। गंगा सप्तमी को उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में, गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है। जिनकी आराधना देवी के रूप में की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि देवी गंगा को समर्पित है। इसे जाह्नू सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है।

### गंगा सप्तमी 2024: तिथि और समय

इस वर्ष, गंगा सप्तमी 14 मई, 2024 को मनाई जाएगी। नीचे महत्वपूर्ण समय दिए गए हैं: गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त-सुबह 11:26 बजे से दोपहर 02:19 बजे तक

अवधि- 02 घंटे 53 मिनट

सप्तमी तिथि प्रारंभ-13 मई, 2024 को शाम 05:20 बजे

सप्तमी तिथि समाप्त- 14 मई, 2024 को शाम 06:49 बजे

### गंगा सप्तमी 2024: महत्व

गंगा सप्तमी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है जैसे शुभा, गंगे भागीरथी और विष्णुपत्नी। विष्णुपत्नी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से निकली थीं। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है। जो भक्त गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विस्तर्जित करने में भी किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके।

### गंगा सप्तमी 2024: कथा

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, देवी गंगा पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जह्नु ने सारा गंगा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जह्नु से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा फिर से धरती पर आई और इसीलिए इस दिन को जह्नु सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी से जुड़ी एक और कहानी है, एक बार, कोसल के राजा भागीरथ परेशान थे क्योंकि उनके पुत्र बुरे कर्मों के पापों से पीड़ित थे। भागीरथ चाहते थे कि वे इससे मुक्त हों, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी, उनके पूर्वजों की आत्मा को शुद्ध करेंगी। लेकिन वह जानते थे कि देवी गंगा का प्रवाह सब कुछ नष्ट कर सकता है, तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा क्योंकि वे ही गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस शुभ दिन देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी, इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है।

### गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और इसके बाद की पूजा विधि

- गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं।
- फिर गंगा नदी में स्नान करें और यदि नदी में स्नान संभव न हो तो गंगाजल नहाने के पानी में मिलाएं।
- गंगा नदी में स्नान के समय सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें।
- सूर्य अर्घ्य के बाद भगवान शिव का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करें।
- फिर 'हर हर गंगे' का उच्चारण करते हुए नदी में क्षमता अनुसार डुबकी लगाएं।
- संभव हो तो तीन डुबकी अवश्य लगाएं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
- मां गंगा को दूध चढ़ाएं। फिर मां गंगा को घृत, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें।
- मां गंगा को नैवेद्य के फूल की माला अर्पित करें।
- नदी में खड़े-खड़े मां गंगा के मंत्रों का जाप करें।
- गंगा स्तोत्र का पाठ भी करें और मां गंगा से प्रार्थना करें।
- मां गंगा को सफेद रंग की मिठाई या अन्य खाद्य का भोग लगाएं।
- मां गंगा की आरती उतारें और क्षमता अनुसार दान करें।



# दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जांच में कुछ नहीं मिला : पुलिस

## यह धमकी एक अफवाह प्रतीत होती है और घबराने की कोई जरूरत नहीं: गृह मंत्रालय

**एजेंसी** नई दिल्ली दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कम से कम 100 स्कूलों को इमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को सुबह विद्यार्थियों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह धमकी एक अफवाह प्रतीत होती है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थानीय पुलिस ने धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना के बाद स्कूलों को खाली करा लिया। दिल्ली अग्निशमनसेवा के अनुसार उसे बुधवार दोपहर 12 बजे तक विभिन्न स्कूलों से ऐसे 97 फोन कॉल आए जिनमें बम रखे होने की धमकी की जानकारी दी गई थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडाके कई निजी स्कूलों को भी बम से

## मप्र में निजी स्कूल के छात्रावास में बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार

**एजेंसी** भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जिसके बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का आदेश दिया |पुलिस ने बतायाकि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना वास्तव में कब हुई।मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया, 'एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। इस संबंध में एक शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार रात तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम

### डॉक्टर समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए

विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे डॉक्टर समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजयवाड़ा पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अधिराज सिंह राणा ने बताया कि परिवार के चार सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए जबकि एक फांसी पर लटका मिला। उन्होंने कहा कि शवों को उन्होंने मंगलवार सुबह देखा और संदेह है कि वारदात सोमवार की रात को हुईी होगी। पुलिस ने कहा कि डी श्रीनिवास (40) को फांसी पर लटका हुआ पाया गया जबकि उनकी पत्नी डी उषा रानी (38), दो नाबालिग बच्चे - लड़का और एक लड़की (7) और उनकी मां डी रामनकमा (70) के शवों की नसें कटी हुई पाई गईं।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि हार्डी रोग विशेषज्ञ श्रीनिवास ने पहले कहीं की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली हो। राणा ने बताया, "वह आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना अस्पताल बेच दिया था।

## बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सजा

**एजेंसी** तिरुवनंतपुरम केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल की अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनायी है। तिरुवनंतपुरम की त्वरित विशेष अदालत की न्यायाधीश आर रेखा ने अभियुक्त को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोम्सो) कानून की तीन धाराओं के तहत उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनायीं। अभियुक्त को सजा सुनाये जाने की पुष्टि करते हुए विशेष सकार्री वकील आर एस विजय मोहन ने मंगलवार को बताया कि अभियुक्त को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम तथा भादंस के विभिन्न प्रावधानों के तहत अलग-अलग अवधियों के लिए कैद की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है जो कुल 21 साल है। उन्होंने कहा कि अदालत ने 40 वर्षीय अभियुक्त पर 90,000 रुपये का जुमाना भी लगाया। उन्होंने कहा कि कैद की विभिन्न सजा साथ साथ चलनी है इसलिए उसे ताउम्र कैद में रहना होगा। सरकारी वकील के अनुसार

### पुलिस ने धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना के बाद स्कूलों को कराया था खाली

उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने कहाकि उसने उन सभी स्कूलों की गहन जांच की है जहां बम रखे होने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जांच में कुछ नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा 'दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल मिले। दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की है।' पोस्ट में आगे कहा गया है, 'कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अफवाह है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें।

## मप्र में निजी स्कूल के छात्रावास में बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार

**एजेंसी** भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जिसके बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का आदेश दिया |पुलिस ने बतायाकि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना वास्तव में कब हुई।मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया, 'एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। इस संबंध में एक शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार रात तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम

### डॉक्टर समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए

विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे डॉक्टर समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजयवाड़ा पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अधिराज सिंह राणा ने बताया कि परिवार के चार सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए जबकि एक फांसी पर लटका मिला। उन्होंने कहा कि शवों को उन्होंने मंगलवार सुबह देखा और संदेह है कि वारदात सोमवार की रात को हुईी होगी। पुलिस ने कहा कि डी श्रीनिवास (40) को फांसी पर लटका हुआ पाया गया जबकि उनकी पत्नी डी उषा रानी (38), दो नाबालिग बच्चे - लड़का और एक लड़की (7) और उनकी मां डी रामनकमा (70) के शवों की नसें कटी हुई पाई गईं।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि हार्डी रोग विशेषज्ञ श्रीनिवास ने पहले कहीं की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली हो। राणा ने बताया, "वह आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना अस्पताल बेच दिया था।

## बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सजा

**एजेंसी** तिरुवनंतपुरम केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को छह साल की अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनायी है। तिरुवनंतपुरम की त्वरित विशेष अदालत की न्यायाधीश आर रेखा ने अभियुक्त को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोम्सो) कानून की तीन धाराओं के तहत उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनायीं। अभियुक्त को सजा सुनाये जाने की पुष्टि करते हुए विशेष सकार्री वकील आर एस विजय मोहन ने मंगलवार को बताया कि अभियुक्त को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम तथा भादंस के विभिन्न प्रावधानों के तहत अलग-अलग अवधियों के लिए कैद की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है जो कुल 21 साल है। उन्होंने कहा कि अदालत ने 40 वर्षीय अभियुक्त पर 90,000 रुपये का जुमाना भी लगाया। उन्होंने कहा कि कैद की विभिन्न सजा साथ साथ चलनी है इसलिए उसे ताउम्र कैद में रहना होगा। सरकारी वकील के अनुसार



दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार उन्हें संदेह है कि ईमेल किसी एक स्रोत से ही दिल्ली और उससे लगे नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि सभी स्कूलों को प्राप्त ईमेल एक जैसे हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईमेल अफवाह लगते हैं। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी कदम उठा रही हैं।' नोएडा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून

### अटारी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जबती प्रकरण में अहम आरोपी 'चाचा' गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अटारी सीमा पर 700 किलो ग्रामों के मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में एक अन्य अहम आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अबतक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अल्टर सईद उर्फ चाचा ने सरगना शाहिद अहमद के निर्देश पर मादक पदार्थ के ढंघे से हुई आय का प्रबंधन किया था। एनआईए के दलों ने मंगलवार को दिल्ली के दरियागंज में सईद के परिसेरों की तलाशी ली थी और अहम दस्तावेज जब्त किये थे। उसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बयान के अनुसार, एनआईए मादक पदार्थ रैकेट की पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए इन दस्तावेजों का गहन परीक्षण कर रही है। एनआईए की जांच से खुलासा हुआ है कि भारत से आणगुलिस्तान और फिर संयुक्त अरब अमीरात में मादक पदार्थों की आपूर्ति/बिक्री से होने वाली कमाई के अंतरण के लिए एनएला संवालकों एवं अन्य के नेटवर्क को बनाने एवं उसे बनाये रखने में सईद अहम भूमिका निभाता था।

## केंद्र को कोविशील्ड के दुर्लभ दुग्धभावों से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम करना होगा : आप



हमारे देश की सरकार इसे लागा रही थी और प्रचारित कर रही थी।' भारद्वाज ने कहा कि लोगों के दिमाग में पहले से ही ये प्रश्न थे कि क्या 'हृदयाघात के मामले अचानक से बढ़ने का किसी भी तरह टीकों से कोई संबंध है। ब्रिटेन से संचालित फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि 'बहुत दुर्लभ मामलों में@ उसके कोविड-19 टीके से खून का थक्का जमने जैसे दुग्धभाव सामने आ सकते हैं लेकिन इसके कारण का अभी पता नहीं है | यह बात ब्रिटेन के मीडिया में कंपनी द्वारा अदालत में प्रस्तुत कागजात के हवाले से कही जा रही है।

### फैसला अर्जी 'बहुत ही दुस्साहसिक' एवं कानून के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है

## उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार नेताओं को डिजिटल तरीके से प्रचार की अनुमति संबंधी याचिका खारिज की

**एजेंसी** नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार नेताओं को डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने संबंधी एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि यह अर्जी 'बहुत ही दुस्साहसिक' एवं कानून के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि याचिकाकर्ता एक छात्र है। अदालत विधि छात्र अमरजीत गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गुप्ता निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की धोखाधड़ी जांच के बाद नेताओं, खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, की गिरफ्तारी के समय को चुनाव से महज पहले राजनीतिक दल बनाने लगेगे। उच्च न्यायालय ने

## देश/विदेश दर्पण

## देश/विदेश दर्पण

वी के सक्सेना ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए 'एक्स' पर लिखा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त से बात की है और इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस को स्कूल परिसरों की सघन जांच करने, दोषियों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी कमी नहीं छूटे।' सक्सेना ने अभिभावकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और स्कूलों एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा, 'दोषियों और उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा।' दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी अभिभावकों से न घबराने की अपील करते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'कुछ स्कूलों को आज सुबह बम रखे होने की धमकी मिली। छात्रों को निकाल लिया गया है और स्कूल परिसरों की दिल्ली पुलिस तलाशी ले रही है। अभी तक किसी स्कूल में कुछ नहीं मिला है।'

## भारत, नाइजीरिया में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र पूरा करने पर सहमति

**एजेंसी** नई दिल्ली भारत और नाइजीरिया ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) से तात्पर्य दो देशों के बीच द्विपक्षीय लेनदेन प्रत्येक देश की संबधित मुद्रा में किए जाने से है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अप्रैल को भारत-नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के दूसरे सत्र के लिए अबुजा ( नाइजीरिया) की यात्रा की। ऐसा पांच साल के अंतराल के बाद किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए एकदोसरे की पहचान की है। इन क्षेत्रों में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, औषधि, एकीकृत भुगतान इंटरफेस

## कांग्रेस का 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का वादा ही असली 400 पार : जयराम रमेश

**एजेंसी** नई दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अपनी 'श्रमिक न्याय' गारंटी दोहराते हुए कहा कि 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देने का उसका वादा ही असली '400 पार' है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने श्रमिकों के लिए पार्टी की गारंटियां गिनायीं और आरोप लगाया कि पिछला 10 साल उनसे लिए 'अन्याय काल' रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर 2024 के न्यायसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लोकसभ की 'श्रमिक न्याय' गारंटियों को याद करना बिल्कुल उपयुक्त है। गारंटियों की विस्तार से चर्चा करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के साथ 'श्रम का सम्मान' करने का वादा किया है और उनमें मनरेगा के मजदूर भी शामिल हैं। रमेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में, भाजपा के '400 पार' नारे

## प्रधानमंत्री को प्रज्वल के 'अपराध' की जानकारी थी, फिर भी लोगों से मत देने की अपील की : कांग्रेस

**एजेंसी** बेंगलुरु

कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सहयोगी जनता दल सेक्युलर के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी थी इसके बावजूद उन्होंने मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, 'उन्होंने(मोदी) न केवल उनकी (प्रज्वल) प्रशंसा की बल्कि 14 अप्रैल को उनके पक्ष में मतदान करने की भी अपील की।' जद (एस) प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना पर परिवार की एक घरेलू सहायिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जद(एस) पिछले साल सितंबर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा क्षेत्र से राजग के उम्मीदवार हैं, जहां पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। हाल के दिनों में करीब

### महाराष्ट्र के लुटेरों को लोकसभा चुनाव में राज्य का गौरव और साहस दिखेगा: उद्धव

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में 'महाराष्ट्र के लुटेरों' को राज्य का गौरव और साहस दिखाया जाएगा। ठाकरे दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने 'संयुक्त महाराष्ट्र' आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले 105 लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के गठन के उपलक्ष्य में एक मीटो को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठाकरे ने कहा, 'हम महाराष्ट्र को किसी का गुलाम नहीं बनने देंगे। हम महाराष्ट्र को लुटेरों ने और इसके गौरव को कुचलने की अनुमति नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में हम महाराष्ट्र के लुटेरों को दिखा देंगे कि इसका गौरव और साहस क्या है। सीट-बंटवारे के समझौते के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) कांग्रेस की कुल 48 सीट में से 21, काग्रेस 17 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है।



3,000 वीडियो क्लिप वायरल हुए हैं जिनमें कथित तौर पर प्रज्वल कई महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहे हैं। प्रज्वल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में परिचय के साथ 'मोदी का परिवार' लिखा है। इसे डीमॉत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने आरोप लगाया, '...उन्होंने (प्रज्वल) जो किया है वह बहुत ही चौकाने वाला है। यह इस हद तक चौंकाने वाला है कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो गयीं कि क्या यह किसी कल्पना आधारित फिल्म का हिस्सा है या यह सच है? एक नहीं, दो नहीं बल्कि लगभग 3,000 वीडियो और कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया गया है। यह कोई सेक्स स्कैंडल नहीं है।' यह इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा बलात्कार कांड है। उन्होंने कहा, 'वह न केवल उम्मीदवार हैं बल्कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'पसंदीदा' हैं। मोदी ने 14

## संक्षिप्त-समाचार

### ऋषिकेश के निकट गंगा नदी में दिल्ली का युवक डूबा

देहरादून। उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान करते समय दिल्ली का एक युवक डूब गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना नीम बीच पर अलोहा होटल के निकट हुई। उसने बताया कि दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के विजय विहार का रहने वाला कनिष्क राणा (21) अपने दो दोस्तों के साथ नदी में स्नान कर रहा था कि इसी दौरान चांडू पत्थर के निकट पहुंचने पर वह अनामक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूब गया। पुलिस ने बताया सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जल पुलिस और राणा आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि राणा अपने दोस्तों वंश गौड़ और हिमांशु के साथ दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आया था।

### प्लैट की छत का प्लास्टर गिरा, एक घायल

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक मकान की छत का प्लास्टर गिरने से वहां रहने वाला 21 वर्षीय युवक घायल हो गया। स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार को देर रात 11 बज कर करीब 30 मिनट पर कोपरी क्षेत्र में पचास साल पुरानी तीन मंजिला इमारत में हुई। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यशीन तडवी ने बताया 'प्लैट में रहने वाले अनिकेत मुरुटुडकर को छत का प्लास्टर गिरने से मामूली चोट आई है। घायल युवक को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार हुआ है।' बिल्डिंग में आई दरारों को देखकर प्रभावित प्लैट के निवासियों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। तडवी ने बताया कि इमारत में कुल 22 प्लैट हैं और बुधवार को स्थानीय निकाय के अधिकारी आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करने के लिए जांच-पड़ताल करेंगे।

### ओडिशा में सड़क किनारे पेड़ से वाहन टकराने से दंपती की मौत

फुलबनी (ओडिशा)। ओडिशा के कंचमाला जिले में सड़क किनारे पेड़ से एक वाहन के टकरा जाने के कारण वाहन सवार दंपती की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार शाम रायकिया शहर में उस वक्त हुई जब दंपती अपनी बेटी को बेरहामपुर रेलवे स्टेशन छोड़कर घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दंपती को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उन्हें जिला मुख्यालय अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त सुभाष सिंह और उनकी पत्नी नलिनी नायक के रूप में की गई है। सिंह सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे, जबकि नलिनी रायकिया शहर में स्कूल शिक्षिका थीं।

### निमार्णाधीन भवन के लिफ्ट की साफ्ट में गिर जाने से महिला की मौत

नोएडा (उप्र)। नोएडा में सेक्टर 126 थाणाक्षेत्र के सेक्टर 127 में एक निमार्णाधीन भवन में लिफ्ट की साफ्ट में गिरने से एक महिला की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाणा प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को सेक्टर 127 स्थित एक निमार्णाधीन भवन में स्थानी नामक श्रमिक काम के दौरान साँफ्ट के पास पहुँची थी और वहां बालू की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह ऊँचाई से गिरने पड़ गयी। सिंह ने बताया कि उसके परिजनों ने गंभीर हालत में उसे नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह महिला तलाकशुदा थी। रिश्ते ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

### हजारो गोलों, गोलियों और 37 मिसाइलों की सैन्य अड्डे से चोरी हुई: कोलंबिया के राष्ट्रपति

गोतेआ। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मंगलवार को कहा कि देश के दो सैन्य अड्डे से हजारों गोलों (ब्रेनेड) और गोलियों की चोरी हुई है। पेट्रो ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि सेना ने इस माह निरीक्षण किया और पाया कि हजारों गोलियां, हजारों गोले और तोप रोधी 37 मिसाइलें सैन्य अड्डे से चुराई गई हैं। इन सैन्य अड्डों में से एक देश में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर टट के निकट स्थित है। राष्ट्रपति ने कहा कि हो सकता है कि ये गोला-बारूद कोलंबियाई विद्रोही संगठनों के हाथ लगे हों या उन्हें अन्य देशों में आपराधिक समूहों को अवैध रूप से बेच दिया गया हो जिनमें हैती के विद्रोही भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'जो सामान गायब है उसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि सशस्त्र बलों में भी ऐसे लोगों के नेटवर्क हैं जो हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल हैं।' राष्ट्रपति ने कहा कि 'सशस्त्र बलों को किसी भी आपराधिक संगठन से दूर रखने के लिए' सैन्य अड्डों का निरीक्षण जारी रहेगा।' सैन्य अड्डों की जांच ऐसे वक्त हुई है जब कोलंबिया ने देश के दक्षिण-पश्चिम में विद्रोही संगठन 'एफएआरसी-ईएमसी' के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू की है। वर्ष 2016 में 'रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोरसेज ऑफ कोलंबिया' और सरकार के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस विद्रोही संगठन से अलग होकर 'एफएआरसी-ईएमसी' बना था।

### किशनगंज में रसोई गैस सिलेंडर फटने से लगी

**आग में महिला और तीन बच्चों की जलकर मौत**
किशनगंज-पटना। बिहार के किशनगंज जिले के पौआखाली इलाके में एक घर में रसोई गैस के एक सिलेंडर के अनामक फटने के बाद लगी आग में 30 वर्षीय एक महिला और उसके तीन बच्चों की जलकर बुवार सुबह मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज जिले के पौआखाली इलाके के नबनर गांव में एक घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर के अनामक फटने से हुए हादसे में चार लोगों की जान जाने पर शोक सेवेलना व्यक्त की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक व्हाट्सप के अनुसार, नीतीश ने इस हादसे को अत्यंत दुःख बताते हुए घटना के समुचित इलाज का निर्देश दिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से मुक्त के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में वैध धारा करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया, 'मैंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी डिस्कोडे के कारण का पता लगाने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन एलपीजी सिलेंडर की कंपनी को भी पत्र लिखेगा, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मामले की जांच की जा सके।







# राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने अभियान को ढर्रे पर लाना चाहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद

दोनों टीमों के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा

**एजेंसी**  
हैदराबाद

लक्ष्य का पीछा करते हुए भटकरने वाली सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बृहस्पतिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में अपने अभियान को ढर्रे पर लाना चाहेगी। रॉयल्स का प्लेआफ में स्थान लगभग पक्का है लेकिन सनराइजर्स के लिये इस मैच में बहुत कुछ दाव पर है। कुछ दिन पहले तक शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स को रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इन पराजयों के बाद टीम शीर्ष चार से बाहर हो गई। चार जीत और चार हार के बाद अब दस अंक लेकर 2016 चैम्पियन टीम पांचवें स्थान पर है। पेट कर्मिस की कप्तानी वाली टीम के शीर्ष और मध्यक्रम के



बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते हुए नाकाम रहे हैं जिससे कोच डेनियल विटोरी को स्वीकार करना पड़ा कि लक्ष्य का पीछा करते हुए अति आक्रामक खेलने की रणनीति गलत रही। सनराइजर्स ने इस सत्र में पहले बल्लेबाजी करते हुए दो बार 250 से अधिक स्कोर बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 से अधिक का स्कोर एक बार भी हासिल नहीं कर

**टीमों का विवरण**

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, शुभम बुबे, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, टॉम कोहलर-केडमोर, रियान पराग, रोवमैन पवेल, कुणाल सिंह राठौड़, रविचंद्रन अश्विन, डोनेवन फरेरा, अवंश खान, ट्रेट बोल्ट, नंदी बर्गर, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सेन, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, आबिद मुश्ताक, तनुश कोटियल।

सनराइजर्स हैदराबाद: पेट कर्मिस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), ऐडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, झटवेध सुब्रमण्यम, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारुकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

सैमसन जैसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हैं। शिमरान हेटमायर और रोवमैन पवेल के अलावा रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने भी रन बनाये हैं। गेंदबाजी में उनके पास युजवेंद्र चहल, ट्रेट बोल्ट का अनुभव और आवेश खान तथा संदीप शर्मा का जोश है।

# मयंक के वापसी करते हुए पहले ही मैच में चोटिल होने के लिए लखनऊ का नेतृत्व जिम्मेदार: ली

‘अब शायद इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई चोट लगी है तो वह विश्व कप से बाहर हो जाएगा।’



कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि इस युवा तेज गेंदबाज को उसी स्थान पर दर्द महसूस हो रहा है जिसके कारण वह लगभग तीन सप्ताह तक मैदान से बाहर रहे थे। खेल के सबसे तृफानी तेज गेंदबाजों में से एक रहे ली ने इसका दोष लखनऊ टीम के शीर्ष प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ पर मड़ा। ली ने 'जियो सिनेमा' की विज्ञापित में कहा, 'साइड स्ट्रेन या इसे जो भी कहा जाए, सामान्यतः इसे ठीक होने में कम से कम चार से छह सप्ताह लगते हैं। हमें नहीं पता कि यह कितना गंभीर है लेकिन जो व्यक्ति 150 किमी प्रति घंटे की रफतार से गेंदबाजी करके अपने शरीर पर बोझ डाल रहा है उसके लिए यह बिल्कुल भी अच्छा प्रबंधन नहीं है।' उन्होंने कहा, 'वापसी करते हुए उसका पहला

# मैट्रिड ओपन में आखिरी बार खेलते हुए हार के बाद भावुक हुए नडाल



**एजेंसी**  
मैट्रिड

बाईस बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन रफेल नडाल मैट्रिड ओपन के चौथे दौर में मिली हार के बाद भावुक हो गए चूँकि यहाँ वह आखिरी बार खेल रहे हैं। पांच बार के चैम्पियन नडाल को 31वीं रैंकिंग वाले जिरि लेहेका ने 7-5, 6-4 से हराया।

हार के बाद नडाल ने कहा, 'यह काफी कठिन दिन है लेकिन यही हकीकत है। मेरा शरीर और जिंदगी काफी समय से संकट में रहे हैं। मैं इस कोर्ट को अलविदा कह रहा हूँ और मेरे लिये यह बहुत भावुक पल है। यहाँ की यादें सदैव मेरे साथ रहेंगी।' नडाल के हमवतन स्पेन के ही कार्लोस अल्काराज तीन घंटे तक चले मैच में जान लेनार्ड स्टाफ को 6-3, 6-7, 7-6 से हराकर अगले दौर में पहुँच गए। शीर्ष

# पंड्या और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर धीमी ओवरगति के लिये लगाया जुमाना

लखनऊ। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में दूसरी बार टीम की ओवरगति धीमी रहने के कारण 24 लाख रुपए जुमाना लगाया गया है। इंपेक्ट खिलाड़ी समेत बाकी खिलाड़ियों पर छह छह लाख रुपए या मैच फीस के 25 प्रतिशत में से जो कम हो, जुमाना लगाया गया। मुंबई को लखनऊ ने चार विकेट से हराया। आईपीएल ने एक बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के 48वें मैच के दौरान धीमी ओवरगति के लिये जुमाना लगाया गया है।' इसमें कहा गया, 'यह इस सत्र में धीमी ओवर गति संबंधित टीम का दूसरा अपराध था तो पंड्या पर 24 लाख रुपए जुमाना लगाया गया है। बाकी सदस्यों पर छह छह लाख रुपए या मैच फीस के 25 प्रतिशत में से जो कम हो, जुमाना लगाया गया है।'

# मार्श की अगुवाई में आस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप टीम घोषित



**एजेंसी**  
मेलबर्न

हरफनमौला मिचेल मार्श को टी20 विश्व कप के लिये आस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का कप्तान चुना गया जबकि अनुभवी स्टीव स्मिथ और युवा जैक फ्रेंसर मैकगुक को टीम में जगह नहीं मिली है। यह एक दशक में पहली बार है कि पूर्व कप्तान और आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक स्मिथ को विश्व कप टीम से बाहर रखा गया है। चयनकर्ताओं ने ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर और मार्श पर भरोसा जताया है। आईपीएल में किसी टीम के साथ करार नहीं होने से भी स्मिथ को नुकसान हुआ। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में शुमार स्मिथ ने 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 125-45 की स्ट्राइक रेट से 1094 रन बनाये हैं। वहीं आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिये पांच मैचों में 237-50 की स्ट्राइक रेट से 247 रन

# अफगानिस्तान की टी20 विश्व कप टीम में आठ आईपीएल खिलाड़ी



**एजेंसी**  
काबुल

टी20 विश्व कप के लिये अफगानिस्तान की टीम में इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे आठ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जबकि कप्तान स्टार हरफनमौला राशिद खान होंगे। विश्व कप 2023 में टीम के कप्तान रहे हशमतुल्लाह शाहिदी को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। हजरतुल्लाह जजाई, सैदिकुल्लाह अतल और मोहम्मद सलीम सैफी को रिजर्व के तौर पर टीम में रखा गया है। राशिद, अजमतुल्लाह उमरजई, नूर अहमद, फजलहक फारुकी, नवीनुल हक, मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज, गुलबदन नायब इस समय आईपीएल खेल रहे हैं। अफगानिस्तान को 20 टीमों के टूर्नामेंट में ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के साथ रखा गया है।

**अफगानिस्तान टीम :**  
राशिद खान ( कप्तान ), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदन नायब, करीम जनत, नांगयाल खरोती, सुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवीनुल हक, फजलहक फारुकी, फरीद अहमद मलिक।  
रिजर्व: सैदिकुल्लाह अतल, हजरतुल्लाह जजाई, मोहम्मद सलीम सैफी।  
उसे तीन जून को प्रोविडेंस में युगांडा से पहला मैच खेला है।

# स्वाद दर्पण



# डिनर में बनाएं मूंग दाल का करैल

डिनर में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की है टेंशन तो आप भी ट्राई कर सकती हैं मूंग दाल के करैल की आसान रेसिपी। अक्सर महिलाओं की एक बड़ी समस्या होती है कि रोज खाने में नया क्या बनाया जाए जो स्वाद से भरपूर हो और सेहतमंद भी हो। खासतौर पर जब घर में सब्जियां न हों तब कोई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको इस समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए एक ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लाए हैं जिसके लिए आपको सब्जियों की नहीं बल्कि दाल की जरूरत है। जी हाँ आप मूंग की दाल से डिनर के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन मूंग की दाल का करैल तैयार कर सकती हैं। इससे आपको खाने का भरपूर मजा तो मिलेगा ही और ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी ऑफ द डे में जानें मूंग दाल करैल की आसान रेसिपी।

## बनाने का तरीका



- मूंग की दाल का करैल बनाने के लिए आप सबसे पहले छिलके वाली मूंग की दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। दाल जब अच्छी तरह से भिग जाए तब इसे धोकर इसके छिलके अलग कर लें। छिलके अलग होने के बाद दाल का पानी अलग करके छान लें।
- मूंग दाल को छानकर इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि आपको इसका ऐसा पेस्ट बनाना है जिसमें बहुत ज्यादा पानी न मिलाए।
- मूंग दाल के पेस्ट में एक चूटकी हींग और आवश्यकतानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे 5 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें।
- 5 मिनट बाद पेस्ट की पकीड़ियां तैयार करनी हैं इसलिए कढ़ाही में तेल डालकर गर्म करें और गैस की प्लेम धीमी करके मूंग दाल के पेस्ट की पकीड़ियां तैयार करें।
- पकीड़ियां जब गोल्डन ब्राउन होने लगें तब इन्हें एक प्लेट में निकालकर अलग कर लें और कढ़ाही में करैल के लिए मसाला तैयार करें।
- करैल का मसाला बनाने के लिए कढ़ाही में तेल डालें और उसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार करके डालें। जब इस पेस्ट से तेल अलग होने लगे तब इसमें और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला डालें। इसमें आवश्यकतानुसार नमक डालकर पानी डालें और ग्रेवी तैयार करें।
- जैसे ही पानी और मसाले अच्छी तरह से पक जाए गैस की प्लेम धीमी करके उसमें मूंग दाल की पकीड़ियां डालें और ढककर रख दें।
- मूंग दाल का करैल तैयार है इसे हरी धनिया से गार्निश करें और गरमा-गरम रोटीयों के साथ चर्च करें।

# घर पर ऐसे बनाएं कश्मीरी रोगन जोश

यह कश्मीर की पारंपरिक डिश जिसे मुगल लेकर आए थे। यह मटन से बनने वाली लजीज डिश है। यह डिश दिखने में लाल होती है जोकि इसमें पड़ने वाले मसालों के कारण होता है। मटन की यह डिश देश के हर कोने में पसंद की जाती है। रोगन जोश बहुत ही बेहतरीन डिश है जिसे किसी पार्टी के मेन्यू में शामिल करने उस पार्टी की रौनक और बढ़ जाती है।

कुल समय 50 मिनट  
तैयारी का समय 10 मिनट  
पकने का समय 40 मिनट  
कितने लोगों के लिए 4 मीडियम

## रोगन जोश की सामग्री

- (बोनलेस पीस और रिब्स) 1 किलो लैंब
- 20 ग्राम हल्दी
- 75 ग्राम अदरक-लहसुन पेस्ट
- 10 ग्राम इलायची
- 5 ग्राम तेजपत्ता
- 200 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट
- 250 ग्राम ग्रां (एक तरह की प्याज)
- 75 ग्राम सौंफ के बीज
- 25 ग्राम सौंठ पाउडर
- 40 ग्राम हरी इलायची पाउडर
- 100 ग्राम दही
- 100 ग्राम घी
- मवल का फूल

## बनाने की विधि

- ग्रां को साफ करके काट लें और फ्राई कर लें। जब यह ठंडे हो जाए, तो मिक्सी में पीस लें। पेस्ट तैयार कर लें। दही फेंटे।
- मटन के पीस को हल्दी, अदरक-लहसुन के पेस्ट, इलायची और तेजपत्ता में उबाल लें।
- अब लैंब को पानी से निकालकर अलग कर लें। पानी में मवल का फूल डालें।
- एक पैन में घी गर्म करें। उसमें प्याज डालकर करुब तीन मिनट के लिए भूनें।
- इसके बाद इसमें तैयार किया पानी (यानी की स्टॉक) डालें। साथ ही बाकी की सभी सामग्री डालें।
- ध्यान रहे आपको इसमें अभी मीट नहीं डालना है। तेज आंच पर 20 मिनट के लिए मिक्सचर को उबाल लें।
- अब इसमें मीट डालें। सात ही मवल एक्सप्रेक्ट डालें। पांच मिनट के लिए पकाएँ। गर्मा-गर्म सर्व करें।





